



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: APPLIED ECONOMICS (GROUP-A)

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- FIRST

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:-

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 लोक वित्त का अर्थ लिखे।
Write the meaning of Public Finance.
- प्र.2 कर वचन क्या है।
What is Tax evasion?
- प्र.3 सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं।
What do you mean by Public Expenditure?
- प्र.4 बजट का क्या अर्थ है।
What is the meaning of Budget?
- प्र.5 वित्त आयोग के कार्यों को समझाएँ।
Discuss the functions of Finance Commission?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 निजी एवं लोक वित्त के अंतर समझाएँ।
Discuss the difference between Private and Public Finance.
- प्र.7 भारतीय कर प्रणाली के दोषों का वर्णन करें?
Explain the defects of Indian Tax system.
- प्र.8 "भारत में सार्वजनिक ऋण" पर लेख लिखे।
Write an essay on "Public debt in India."
- प्र.9 केन्द्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों पर नोट लिखे।
Write note on Financial Relation between Central and State.
- प्र.10 अद्यतन वित्त आयोग की अनुशंसाओं का वर्णन करें।
Explain the Recommendations of latest Finance Commission.



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: APPLIED ECONOMICS (GROUP-A)

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- SECOND

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:—

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 वित्तीय प्रबंध की प्रकृति को समझाइये।
Discuss the nature of Financial Management?
- प्र.2 पूँजी संरचना के अर्थ लिखे।
Write the meaning of Capital structure?
- प्र.3 शुद्ध प्रत्याय दर क्या है?
What is Net Present Value?
- प्र.4 पूँजी लागत का महत्व लिखे।
Write the importance of cost of capital?
- प्र.5 कार्यशील पूँजी क्या है?
What is working capital?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 वित्तीय नियोजन का महत्व लिखे।
Write importance of Financial Planning.
- प्र.7 पूँजी संरचना के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें।
Explain the determinants of Capital Structure.
- प्र.8 शुद्ध प्रत्याय दर व आंतरिक प्रत्याय दर में क्या अंतर है?
What is the difference between NPU and IRR?
- प्र.9 "ऋण लागत की गणना" पर नोट लिखें?
Write note on calculating "Cost of debt".
- प्र.10 रोकड़ प्राप्त एवं स्कन्ध के प्रबंध पर लेख लिखे।
Write an Essay an "Cash receivable and inventories".



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: APPLIED ECONOMICS (GROUP-B)

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- FIRST

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:-

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 विपणन का महत्व लिखे।
Write importance of Marketing?
- प्र.2 उपभोक्ता व्यवहार क्या है?
What is Consumer Behavior?
- प्र.3 उत्पाद की अवधारणा लिखें।
Write the concept of Product.
- प्र.4 विपणन मिश्रण क्या है।
What is Marketing Mix.
- प्र.5 विक्रय प्रवर्तन क्या है?
What is Sales Promotion?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 आधुनिक विपणन अवधारणा को समझाए।
Discuss the modern marketing concept?
- प्र.7 उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति का वर्णन करें।
Explain the nature of consumer behavior?
- प्र.8 उत्पाद नियोजन एवं विकास पर नोट लिखे।
Write note on Product planning and development.
- प्र.9 वितरण बहिकाओं के प्रकारों को समझाये।
Discuss the types of distribution channels.
- प्र.10 एक सफल विक्रेता को गुणों का वर्णन करें।
Explain the qualities of successful salesman.



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: APPLIED ECONOMICS (GROUP-B)

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- SECOND

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:—

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषा दे।
Define International Marketing.
- प्र.2 अन्तर्राष्ट्रीय विपणन उत्पाद नियोजन पर नोट लिखें।
Write note on Product planning for International Marketing.
- प्र.3 अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है?
What is International Price?
- प्र.4 विदेशी विक्रय अभिकर्ता पर नोट लिखें।
Write note on foreign sales Agent.
- प्र.5 निर्यात वित्त क्या है?
What is export finance?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 घरेलू विपणन एवं अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की तुलना करें।
Compare Domestic Marketing and International Marketing.
- प्र.7 विज्ञापन ब्रांडिंग पर लेख लिखें।
Write an essay on Advertising Branding.
- प्र.8 अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को प्रभावित करने वाले घाटकों का वर्णन करें।
Explain the factors influencing International Price?
- प्र.9 विदेशी विक्रय अभिकर्ता के चयन का वर्णन करें।
Explain the selection of Foreign sales Agent?
- प्र.10 एक निर्यात व्यापार को प्रारंभ करने के चरणों का वर्णन करें।
Explain the steps of Commencement of an Export Business.



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: ACCOUNT

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- FIRST

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:—

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 कर निर्धारण वर्ष तथा गत वर्ष को समझाइये।
Explain the Assessment year and Previous year.
- प्र.2 प्रमाप कटौती को समझाइए।
Explain Standard deduction.
- प्र.3 व्यापार एवं पेशे शब्द का अर्थ बताये।
Explain the term "Business" and "Profession".
- प्र.4 आय के स्रोत एवं आय के शीर्षक में अंतर बतायें।
Distinguish between source of Income and head of Income.
- प्र.5 वेतन पर कर की कटौती कब एवं किस दर पर की जायेगी?
When and at what rate will the tax be deducted on salary.

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 निवासी व्यक्ति के लिए कौन-कौन सी आय कर योग्य होती है?
Which incomes are taxable for the resident Individual.
- प्र.7 मकान के सकल वार्षिक मूल्य एवं उचित किराये को समझाइए।
Explain the Gross annual value and fair rent of the house.
- प्र.8 कर से मुक्त पूँजी लाभों की विवेचना करें।
Discuss the Capital gains which are exempted from tax?
- प्र.9 सकल कुल आय एवं समायोजित सकल कुल आय क्या होती है?
What is Gross Total income and adjusted Gross Total income?
- प्र.10 अर्थ दण्ड लगाने के सामान्य सिद्धांत बतायें।
Explain the general principles of imposing penalties.



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: ACCOUNT

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- SECOND

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:—

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 उत्पाद शुल्क योग्य माल से क्या आशय है?
What is meaning of excisable goods.
- प्र.2 संरक्षण शुल्क एवं निर्यात शुल्क पर नोट लिखें।
Write note on safeguard duty and export duty.
- प्र.3 केन्द्रीय विक्रय कर की दरें बतायें।
Mention the rates of Central sales tax.
- प्र.4 वेट की विशेषताएँ लिखें?
Write the features of VAT.
- प्र.5 सेवाकर की कोई चार विशेषताएँ लिखें।
Mention any four characteristics of Service Tax.

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 उत्पादों के वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या करें।
Explain the rules of classification of goods.
- प्र.7 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की रूपरेखा प्रस्तुत करें।
Present an outline of Customs duty Act 1962.
- प्र.8 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 को परिचय दें।
State the introduction of central sales Tax Act 1956.
- प्र.9 म0प्र0 वेट अधिनियम में प्रशमन (एक मुश्त कर भुगतान) के प्रावधान समझायें।
Discuss the provision of MPVAT Act regarding Composition.
- प्र.10 भारत में सेवाकर की मुख्य बातें समझायें।
Discuss the basics of Service Tax in India?



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: APPLIED ECONOMICS (GROUP-C)

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- FIRST

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:—

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 ई-कॉमर्स का आधुनिक व्यापार में महत्व का वर्णन करें।
Explain the importance of E-commerce in modern Business.
- प्र.2 व्यापार से उपभोक्ता मॉडल क्या है?
What is Business to consumer model (BTOCMODEL)?
- प्र.3 ECRM के विभिन्न प्रकार समझाइए।
Discuss the types of E-CRM.
- प्र.4 ई-भुगतान से क्या समझते हैं?
What do you mean by E-Payment?
- प्र.5 उद्यम संसाधन प्रबंधन क्या हैं?
What is Enterprise Resource management?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 भारत में ई-कॉमर्स बिजनेस का इतिहास लिखें।
Write the History of E-Commerce Business in India.
- प्र.7 उपभोक्ता से व्यवसाय मॉडल समझाये।
Discuss consumer to business model.
- प्र.8 E-CRM के कार्यात्मक तत्वों का वर्णन करें।
Explain the functional components of E-CRM.
- प्र.9 डिजिटल पॉकेट की अवधारणा समझाये?
Discuss the digital wallet concept.
- प्र.10 उद्यम संसाधन प्रबंधन की अवधारणा का वर्णन करें।
Explain the concept of "Enterprises Resource Management"?



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: APPLIED ECONOMICS (GROUP-C)

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- SECOND

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:-

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 मुद्रा बाजार क्या है।
What is Money Market?
- प्र.2 पूँजी बाजार क्या है?
What is Capital Market.
- प्र.3 मर्चेंट बैंकिंग पर नोट लिखें।
Write note on Merchant Banking.
- प्र.4 विनियोग की प्रकृति लिखें।
Write the nature of Investment.
- प्र.5 जोखिम की माप क्या है?
What is the measurement of Risk?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 भारत में वित्तीय बाजार के परिदृश्य पर नोट लिखें।
Write note on an overview of financial Market in India.
- प्र.7 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नोट लिखें।
Write note on National Stock Exchange.
- प्र.8 भारतीय प्रतिभूति विनियम मण्डल के दिशा निर्देशों का वर्णन करें।
Explain the Guidelines of SEBI.
- प्र.9 विनियोग का आशय एवं उद्देश्यों को लिखें।
Write the meaning and objectives of Investments.
- प्र.10 प्रतिभूति जोखिम एवं प्रत्याय विश्लेषण पर नोट लिखें।
Write note on Security Risk and Return Analysis.



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: MANAGEMENT

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- FIRST

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:—

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति लिखें।
Write the nature of Management Accounting.
- प्र.2 वित्तीय विवरण क्या है?
What is financial statement?
- प्र.3 रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है?
What is cash flow statement?
- प्र.4 सीमान्त लागत से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by the marginal costing?
- प्र.5 रोकड़ बजट क्या है?
What is Cash Budget?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 प्रबंधकीय लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर बतायें।
Explain the difference between Management Accounting and Financial Accounting.
- प्र.7 वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य लिखें।
Write about the objectives of financial statements Analysis.
- प्र.8 रोकड़ प्रवाह विवरण का नमूना बनायें।
Prepare Specimen format of Cash flow statement.
- प्र.9 सम-विच्छेद विश्लेषण पर नोट लिखें।
Write note on 'Break-Even Analysis'?
- प्र.10 प्रबंधकीय अंकेक्षण की अवधारणा का वर्णन करें।
Explain the concept of Management Audit.



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – THIRD YEAR (SESSION JAN-DEC, 2025)

SUBJECT: MANAGEMENT

FOR OLD
/ATKT
STUDENTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- SECOND

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:-

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर अंतिम तिथि तक जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 अंकक्षण का क्या अर्थ है।
What is the meaning of Auditing?
- प्र.2 नैत्यक जॉच क्या है?
What is Routine Checking?
- प्र.3 प्रमाणन क्या है?
What is Vouching?
- प्र.4 अंकक्षक की नियुक्ति पर नोट लिखें।
Write note on appointment of an Auditor.
- प्र.5 अनुसंधान की प्रक्रिया पर नोट लिखें।
Write note on process of Investigation.

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 अंकक्षण कार्यक्रम पर एक लेख लिखें।
Write an essay on Audit Programme.
- प्र.7 अंकक्षण कार्य विधि पर नोट लिखें।
Write note on Audit Procedure.
- प्र.8 अंकक्षक के अधिकारों का वर्णन करें।
Explain the powers of Auditor.
- प्र.9 कंपनी अंकक्षण पर नोट लिखें।
Write note on "Company Audit".
- प्र.10 अंकक्षण एवं अनुसंधान में अंतर बतायें।
Explain the difference between Audit and Investigation.